

संपादकीय

## कानूनी सिद्धांत सभी अपराधों पर लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आरोपी को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जमानत नियम है-जेल अपवाद है, और यह कानूनी सिद्धांत सभी अपराधों पर लागू होता है।

गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) जैसे विशेष कानूनों के तहत दर्ज अपराधों में भी यह लागू होता है। पीठ ने कहा कि यदि अदालत उचित मामले में जमानत देने से इंकार करना शुरू कर देगी तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। बेशक, अभियोजन के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना अदालत का कर्तव्य है। जलालुद्दीन खान पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कथित सदस्यों को अपने घर की ऊपरी मंजिल किराए पर देने पर यूपीए लगाया गया था।

साथ ही, अब खत्म हो चुकी आईपीसी की अन्य अनेक धाराओं के तहत भी अनेक मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। आरोप हैं कि किराये पर लिए गए इस परिसर का इस्तेमाल हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के प्रशिक्षण और अपराध की साजिश रचने के मकसद से बैठकें करने के लिए किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच से पता चला कि यह अपराधिक साजिश आतंक फैलाकर देश की एकता एवं अखंडता को खतरों में डालने के लिए रची गई।

2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के दौरान बिहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खान के घर पर छापेमारी की थी। हकीकत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 2022 के एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के अनुसार साढ़े चार लाख के करीब है, जिन्हें जमानत नहीं मिलती।

अपने यहां मुकदमे लंबे समय तक चलते रहते हैं। जजों की संख्या कम है और मामले बहुत ज्यादा। दूसरे जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता आरोपी को जमानत देना गलत नहीं है बशर्ते वह खतरनाक किस्म का अपराधी या बेहद शक्तिशाली न हो। जेलों में आरोपियों को जबरन बंद रखना और दौधमुक्त साबित होने पर बिना शर्त रिहा कर देने से उनको पूरा न्याय नहीं मिलता। जेल वास्तव में अपवादस्वरूप ही इस्तेमाल होनी चाहिए।

इस तथ्यके से सिर्फ जेनरलियों को ही नहीं सहना पड़ता, बल्कि आरोपी का पूरा परिवार को ही भ्रगतना पड़ता है। मामले में भी खान के किरायेदार ही आरोपी हैं। यदि खान उस साजिश में सीधे शामिल नहीं पाए जा रहे हैं तो फिलवक्त उन्हें जमानत देना ही उचित और तर्कसंगत है।

## गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर घबराएं नहीं, रिफंड के लिए अपनाएं ये तरीका

नई दिल्ली

डिजिटल इंडिया के युग में डिजिटल पेमेंट ने हमारे जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। अब चाहे ऑटोवाले की पेमेंट हो या रेस्टोरेंट की, ऑनलाइन पेमेंट हमारी प्राथमिकता बन चुकी है। हालांकि, कभी-कभी जल्दबाजी में गलत पेमेंट हो जाती है, जिससे हमें घबराव हो सकता है। लेकिन अब आपको घबराव होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे तरीके बताते जा रहे हैं जिसे आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।



सर्वे, तो रिफंड जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर बैंक अलग-अलग हैं तो थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

रिफंड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आसान तरीके अपनाएं

1. पेमेंट प्राप्तकर्ता से संपर्क करें: सबसे पहले, जिस व्यक्ति को गलती से आपका पेमेंट गया है,

उससे संपर्क करें। अपना स्क्रीनशॉट साझा करके पैसे वापस भेजने का अनुरोध करें।

2. टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें: अगर व्यक्ति पैसे वापस करने से मना कर देता है, तो तुरंत इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर दर्ज करें।

3. कस्टमर केयर से संपर्क करें: यदि गलत यूपीआई पेमेंट हुआ है,

तो उस एप्लिकेशन के कस्टमर केयर सपोर्ट से संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं और ट्रांजैक्शन के डिटेल्स साझा करें।

4. बैंक से संपर्क करें: यदि पैसे किसी और के पास चले गए हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक आपके पैसे वापस करने में सहायता कर सकता है।

5. एनपीसीआई से शिकायत दर्ज करें: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। आप यहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो आपके पैसे वापस दिलवाने में मदद कर सकती है।

इन आसान कदमों का पालन करके आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट का अनुभव अधिक सहज बना सकते हैं।

## क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खोला यूट्यूब चैनल, सिर्फ 5 घंटे में मिले 5 मिलियन सब्सक्राइबर

नई दिल्ली। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीट में से एक हैं। दुनिया के हर देश में ऐसे फैंस हैं जो रोनाल्डो के लिए पागल हैं। वे रोनाल्डो से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को जानना चाहते हैं और खुद को अपडेट रखना चाहते हैं। दिग्गज फुटबॉलर भी अपने फैंस को चौंकाते का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब रोनाल्डो ने अपने फैंस से जुड़े रहने का नया तरीका इजाजत किया है।

जुड़े रहने का एक तरीका खोजा है। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, चैनल खोलते ही फैंस उन्हें इतने सब्सक्राइबर मिले जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं की होगी। जी हां...रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल खुलते ही सिर्फ 5 घंटे में सब्सक्राइबर्स की संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख को पार कर गई। ये वो आंकड़ा है जिसे पाने के लिए बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को लंबा इंतजार करना पड़ता है लेकिन ये रोनाल्डो का करियरमा था 5 मिलियन के जादुई आंकड़े को उन्होंने सिर्फ 5 घंटे में हासिल कर लिया।

रोनाल्डो ने अपने फैंस के साथ

## वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 54 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान : आरबीआई रिपोर्ट

मुंबई

भारत का प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वित्त वर्ष 2024-25 में 54 प्रतिशत बढ़कर 2,45,212 करोड़ रुपए हो सकता है। यह वित्त वर्ष 2023-24 में 1,59,221 करोड़ रुपए था। आरबीआई की एक स्टडी में यह जानकारी दी गई। आरबीआई की स्टडी में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में निजी कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा किया गया निवेश पिछले वर्ष के मुकाबले 57 प्रतिशत अधिक था।



वित्त वर्ष 2023-24 में निजी

किए गए प्रोजेक्ट्स की लागत के 89 प्रतिशत थे। रिपोर्ट में बताया गया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा पूंजीगत निवेश आ रहा है, जिसमें रोड, पुल और पावर सेक्टर मुख्य हैं।

आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले मासिक बुलेटिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कहा गया था कि आय बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। मांग में कमी होने के कारण अब तक कम हुए निजी निवेश

को इससे प्रोत्साहन और विकास दर को सहारा मिलेगा।

आरबीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में हल्का धीमापन दिखने के बाद मांग में तेजी देखने को मिल रही है। आय बढ़ने के कारण ग्रामीण मांग में भी इजाफा हो रहा है। इससे एफएमसीजी सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ग्रामीण आय बढ़ने के साथ सेविंग में इजाफा हो रहा है, जो कि सेविंग बैंक खाते की संख्या और आउटस्टैंडिंग अकाउंट बढ़ने के रूप में दिख रहा है।

## ऐतिहासिक ओलंपिक के बाद अर्चना कामथ ने शिक्षा के लिए टेबल टेनिस छोड़ दिया

नई दिल्ली

भारत की शीर्ष पैडलर अर्चना कामथ ने शिक्षा के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए टेबल टेनिस छोड़ दिया है। 24 वर्षीय ओलंपियन, जो पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारत की महिला टीम की प्रमुख सदस्य थीं, ने कहा कि उनका निर्णय पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति उनके प्यार से प्रेरित है।



उसने मिशिगन, जहां वह वर्तमान में पढ़ रही है, से बताया, अगर मैंने प्रतिस्पर्धी टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है, तो यह केवल और केवल शिक्षा के प्रति मेरे जुनून के कारण

निभाई, जो भारतीय टेबल टेनिस के लिए एक मील का पत्थर था। जर्मनी से कड़ी हार के बावजूद, कामथ एकमात्र उज्ज्वल स्थान थीं, जिन्होंने उच्च रैंकिंग वाली जिग्नाओना शान के खिलाफ जीत हासिल की।

कामथ के जाने से भारत में टेबल टेनिस को आगे बढ़ाने की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय चिंताओं ने उनके निर्णय में कोई भूमिका नहीं निभाई।

कामथ ने बताया, टेबल टेनिस के साथ मेरे 15 साल शानदार रहे हैं और अपने देश के लिए

अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका मिलने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। यह एक अद्भुत खेल है जिसे मुझे लंबे समय तक खेलने का सौभाग्य मिला है और इसके प्रति मेरा प्यार जारी है।

उन्होंने अपने करियर के दौरान मिले व्यापक समर्थन पर जोर दिया और अपनी यात्रा में सहयोग के लिए ओजीक्यू, टॉपस और इंडियन ऑन्यल जैसे संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे उस मोर्चे पर शिकायत करने का न तो अधिकार है और न ही इसकी इच्छा है - ऐसा करना उन एथलीटों के लिए बेहद अनुचित होगा जिन्होंने वास्तव में समर्थन के अभाव में संघर्ष किया है।

## लिजेल ली ने होबार्ट हरिकेंस के साथ दो साल का किया कॉन्ट्रैक्ट

नई दिल्ली

दक्षिण अफ्रीका की पूर्व सलामी बल्लेबाज लिजेल ली ने होबार्ट हरिकेंस के साथ दो साल का किया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लिजेल को डब्ल्यूबीबीएल के आगामी सीज़नों के लिए विदेशी खिलाड़ियों के लिए प्री-ड्राफ्ट साइनिंग नियमों के तहत साइन किया गया है।



लिजेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद स्थायी रूप से तस्मानिया चली गईं और 2022 से डब्ल्यूबीबीएल में हरिकेंस के साथ जुड़ी हुई हैं।

पिछले डब्ल्यूबीबीएल सीज़न में, लिजेल ने 37.18 की औसत और 146.07 की स्ट्राइक रेट से 409 रन बनाए, जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी भी शामिल थी। उन्हें होबार्ट हरिकेंस डब्ल्यूबीबीएल प्लेयर ऑफ द सीज़न भी चुना गया था।

लिजेल ने एक बयान में कहा, मुझे होबार्ट हरिकेंस के लिए खेलना बहुत पसंद है। मैं तस्मानिया में एक और सीज़न के लिए ब्लैंडस्टोन एरिना में

## आज का राशिफल

**मेघ:** आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। इस राशि के अकाउंट के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा 7 जीवनसाथी आज आपको खुश होने की वजह देंगे। आज घर के सदस्यों के सहयोग से आप कोई खास निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे।

**वृष:** आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको कर्म प्रधान होना आपके भाग्य का निर्माण करेगा। मित्रों अथवा किसी संबंधी के सहयोग से आपके घर में खुशी का माहौल होगा।

**मिथुन:** आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। इस राशि के स्ट्रेटस को किसी विशेष सन्नेकेट को लेकर अधिक एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। आज आपको करियर से सम्बन्धित कोई अच्छी सूचना मिल सकती है।

**कर्क:** आज आपके लिए दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आज खुद से लिए गए निर्णय के बेहतर परिणाम मिलने से खुश रहेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यावाही चल रही है, तो आज बात बन सकती है।

**सिंह:** आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज आप कई तरह की गतिविधियों में दिन बिताएंगे इसके साथ ही कठिन से कठिन बनने के पूरे नियंत्रण के साथ पूरे कर लेंगे। आज कुछ अनुभवी लोगों का संपर्क मिलेगा और आपको नयी जानकारी भी हासिल होगी।

**कन्या:** आज आपका दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। इस राशि की महिलाएं अपने व्यवसाय में विशेष सफलता हासिल करेंगी।

**तुला:** आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो और किसी भी भावनाओं को भी उस न पहेचें पैसों से जुड़े बड़े फैसले आज आपको सोच-समझकर लेने चाहिए।

**वृश्चिक:** आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपको काम को पूरा करने के लिये कड़ी मेहनत करनी होगी नहीं तो आपका काम अधूरा रह भी सकता है। आज दिन आपके पक्ष में है। किसी को दिया उधार पैसा वापस मिलेगा।

**धनु:** आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको पारिवारिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। आपका सही मार्गदर्शन घर के सभी सदस्यों के दिल में एक-दूसरे के प्रति प्यार बढ़ायेगा। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने से मानसिक शांति मिलेगी।

**मकर:** आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज कुछ समय आत्म चिंतन में भी जरूर लगाएँ। इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। निवेश संबंधी गतिविधियां फिलहाल स्थगित ही रखें।

**कुंभ:** आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाते वाला है। आज सम्मानित व्यक्तियों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा तथा उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।

**मिन:** आज आपका दिन घुमने-फिरने में अधिक बीतेगा। परिवार वाले आज आपको अच्छी राय देंगे। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा।

## सरकटे के आतंक संग स्त्री 2 का कहर जारी, श्रद्धा कपूर की फिल्म पार किया 250 करोड़ का आंकड़ा

स्त्री 2 का कहर और सरकटे का आतंक बॉक्स ऑफिस पर अभी भी जारी है। स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 6 दिन पूरे कर लिए हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। यह फिल्म शुरुआत से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। महज 6 दिन में इस फिल्म ने फ्रेल बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। अब स्त्री 2 की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो



कामकाजी दिन के मुताबिक बेहतरीन है।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सेकैनलिक के मुताबिक, स्त्री 2 ने अपनी रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

254.55 करोड़ रुपये हो गया है। 50 करोड़ रुपये की लागत में इस फिल्म ने 51.8 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। श्रद्धा और राजकुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना ने भी इस फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया है।

स्त्री 2 के निर्देशन की कमान अमर कौशिक ने संभाली है, दिनेश विजान और ज्योति देशपांडे इसके निर्माता हैं। फिल्म की कहानी निरिन भट्ट ने लिखी है।

## सनी लियोनी की फिल्म कोटेशन गैंग की रिलीज तारीख से उठा पर्दा, नया पोस्टर आया सामने

अभिनेत्री सनी लियोन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म कोटेशन गैंग को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। यह फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके लिए दर्शकों को और इंतजार करना पड़ेगा। कोटेशन गैंग की रिलीज डेट अब जुलाई से खिसकाकर आगे बढ़ा दी गई है। अब यह फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी।



सनी लियोनी की कोटेशन गैंग अब 30 अगस्त को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इस फिल्म में जैकी श्राफ, प्रियामणि और

## बार-बार खाना गर्म करने से उसका पोषण कम हो जाता है?

खाना गर्म करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अक्सर हम बना हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में एक आम धारणा है कि बार-बार खाना गर्म करने से उसका पोषण कम हो जाता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है, तो चलिए, जानते हैं कि इस बारे में सच क्या है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

\* हेल्थ का खतरा: अगर खाना सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया और बार-बार गर्म किया गया, तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

\* खाना बार-बार गर्म करने के नुकसान: गुणवत्ता में कमी: बार-बार गर्म करने से खाना सूख सकता है और उसका स्वाद बदल सकता है। इससे खाने का मजा कम हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।

\* बैक्टीरिया का खतरा: अगर खाना सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया और बार-बार गर्म किया गया, तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ये बैक्टीरिया सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इससे पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं।

\* विटामिन्स की कमी: बार-बार खाना गर्म करने से कुछ विटामिन्स, खासकर पानी में घुलनशील विटामिन्स जैसे विटामिन सी और बी, कम हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खाना पूरी तरह से बेकार हो जाता है।

\* खाने को सही तरीके से गर्म करने के उपाय \* एक बार ही गर्म करें: कोशिश करें कि जितनी जरूरत हो, उतना ही खाना गर्म करें, ताकि बार-बार गर्म करने से बचा जा सके।

## शब्द सामर्थ्य- 155

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| बाएँ से दाएँ | दबाव, भार, वजन 16. हृद, मर्यादा 18. प्रमाण-पत्र, प्रमाणिक कथन या बात 19. पछताना 21. अनुचित मिश्रण, 7. सीता, जनकनंदनी 9. सुंदर, मिलावट 22. विफल, बेहोश। 10. बीखलाया हुआ। | का मोटा परदा 11. संदेश भेजना, उच्चारण कराना, कहलवाना 12. मृतकों को जीवित और रोगियों को स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रेमपात्र की संज्ञा 14. देने की क्रिया, खैरात 5. कुमार्गी, दुराचारी 17. मस्तक, माथा, ललाट 18. प्रश्न, समस्या 20. सहायता, चंहेरे का लाल होना 13. 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. सहारा 21. पशुओं को खिलाने वाली हरी पत्तियां, तुण, तिनका। |
|--------------|---|--|

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |    |    |    |

**शब्द सामर्थ्य क्रमांक 154 का हल**

|   |   |     |    |    |     |    |      |
|---|---|-----|----|----|-----|----|------|
| ज | द | जे  | ह  | द  | स   | पू | त    |
| ल | ख | ल   | वा | न  |     |    | द    |
| म | ह | क   | खा | म  | खां |    | बी   |
|   |   | त   | ल  | ना | स   | फ  | र    |
|   |   | म   | रा |    | ना  | टा |      |
|   |   | हि  | स  |    |     | फ  | न    |
|   |   | ला  | ज  | वा | ब   | म  | ट    |
|   |   | मां | ग  | सं | त   | ति | थ    |
|   |   | मा  | त  | ह  | त   | प  | क्षी |

## सू-दोक्- 155

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 7 |   |   |
| 4 |   |   | 7 | 5 |   |
| 3 |   |   | 6 | 8 | 9 |
|   | 3 |   | 1 | 6 |   |
| 5 |   |   | 6 |   |   |
|   | 9 |   | 5 |   | 3 |
| 3 |   | 7 | 9 |   | 1 |
| 5 |   |   | 2 | 3 | 9 |
| 1 | 4 |   |   | 8 | 7 |

**नियम**

- कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9वाँ का एक खंड बनाया है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएँ से दाएँ और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

**सू-दोक् क्र.154 का हल**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |